



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1936 (श०)

(सं० पटना 845) पटना, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2014

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

25 सितम्बर 2014

सं० 2/एम-77/06-1050(2)/स्वा०—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल “बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2013 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।—(1) यह नियमावली बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण, बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।
2. उक्त नियमावली, 2013 का नियम-2(ड.) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
(ड.) “स्नातकोत्तर डिग्री” से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री, यथा—एम.डी.,एम.एस. अथवा समकक्ष या उच्चतर डिग्री अथवा डिप्लोमा/डी.एन.बी.की डिग्री ।
3. उक्त नियमावली, 2013 के नियम-7 का प्रथम पारा निम्नलिखित उप नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
“(1) विशेषज्ञ उप-संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या डी.एन.बी. की डिग्री होगी ।
(2) विशेषज्ञ उप संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II के वेतनमान में नियुक्ति हेतु स्नातकोत्तर डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए क्रमशः तीन एवं पाँच वर्षों का कार्यानुभव आवश्यक होगा । उपर्युक्त कार्यानुभव वाले उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, वे विशेषज्ञ ग्रेड-II में स्नातकोत्तर योग्यता वाले सामान्य चिकित्सकों के समकक्ष मूलवेतनमान— (अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ) में नियुक्त होंगे और आवश्यक कार्यानुभव प्राप्त होने के बाद, विशेषज्ञ ग्रेड-II का वेतनमान के लिए पात्र होंगे ।”

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

25 सितम्बर 2014

सं० 2/एम-77/06-1051(2)/स्वा०/अधिसूचना संख्या 2/एम-77/06-1050(2)/स्वा० दिनांक 25 सितम्बर 2014 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में यह अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 25th September 2014

No. 2/M-77/06-1050(2)/H.—In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make following Rules to amend the "Bihar Health Service (Appointment and Service Condition) Rule, 2013."

1. *Title, Extent and Commencement.*—(1) These Rules may be called as the Bihar Health Service (Appointment and Service Condition)(Amendment) Rules, 2014.

(2) It shall extend to the entire state of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. Rule-2(e) of the said Rules, 2013 shall be substituted by the following :

"(e) 'PG Degree' means post Graduate Degree namely M.D., M.S. and equivalent or higher degree or Diploma/D.N.B. Degree recognized by Medical Council of India."

3. First para of Rule-7 of the said Rules, 2013 shall be substituted by the following:—

"(1) Post Graduate degree/Diploma or D.N.B. Degree from a recognized University shall be the minimum qualification in the concerned subject for appointment in the specialist sub-cadre.

(2) For the appointment in pay scale of Specialist Grade-II in specialist sub cadre, three and five years work experiences will be essential for the candidates having P.G. Degree and Diploma respectively. In the case of nonavailability of the candidates having above, work experience, they will be appointed in Specialist Grade-II in pay Scale equivalent to general doctors having P.G. degree in basic pay scale (along with additional increments) and after having essential experiences, will be eligible for pay scale of Specialist Grade-II"

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 845-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>